

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 जून 2015—आषाढ़ 1, शक 1937

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जून 2015

फा. क्र. 17 (ई) 261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के जिला मंदसौर में विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 227-गरोठ हेतु विधान सभा उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को दिनांक 3 जून 2015 से 2 जुलाई 2015 तक 227-गरोठ, विधान सभा उप निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन), जिला मंदसौर

227-गरोठ विधान सभा उप चुनाव 2015 के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु संशोधित नियुक्त सेक्टर अधिकारियों की सूची

स. क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पद नाम (3)	विभाग का नाम (4)
1.	श्री मालसिंह चौहान	सहायक यंत्री	जल संसाधन, गांधीसागर
2.	श्री जी. एस. पाटीदार	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, मंदसौर
3.	डॉ. आर. पी. पटेल	सहा. प्राध्यापक	उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	डॉ. एस. पी. त्रिपाठी	विषय विशेषज्ञ	कृषि विज्ञान केन्द्र, मन्दसौर
5.	श्री एस. एल. बजाज	जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी	ऊर्जा विकास निगम, मन्दसौर
6.	डॉ. रुपेश चतुर्वेदी	सहा. प्राध्यापक	उद्यानिकी महाविद्यालय
7.	श्री बी. के. पाटीदार	सहायक प्राध्यापक	उद्यानिकी विभाग, मंदसौर
8.	श्री अरविन्द शर्मा	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, मंदसौर
9.	श्री हरीश बोराना	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग, मंदसौर
10.	श्री बी. एस. डामोर	सहा. मत्स्य अधिकारी	मछली पालन, मंदसौर
11.	श्री उमेश चन्द्रवाल	सहा. यंत्री	विद्युत् सुरक्षा, मन्दसौर
12.	श्री बी. एस. चौहान	उपायुक्त	सहकारिता विभाग
13.	श्री लोकेन्द्र कुमार डाभी	सहा. जिला परि. समन्वयक	शिक्षा विभाग, मन्दसौर
14.	डॉ. आर. पी. एस. शक्तावत	विषय विशेषज्ञ	कृषि विस्तार केन्द्र, मंदसौर
15.	श्री अशोक जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत, मंदसौर
16.	डॉ. मनीष इंगोले	उपसंचालक	पशुपालन, मन्दसौर
17.	श्री ए. के. जैन	सहा. परियोजना यंत्री	पी. आई. ओ., मन्दसौर

हस्ता./-  
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,  
जिला मन्दसौर